



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1947 (श10)

(सं0 पटना 1152) पटना, बुधवार, 25 जून 2025

सं० एल/एच०जी०-14-08/2024-6756

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

23 जून 2025

श्रीमती रश्मि, तत्कालीन जिला समादेष्टा, रोहतास सम्प्रति प्रमण्डलीय समादेष्टा-सह-जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अरवल के विरुद्ध गृह विभाग (विशेष शाखा) के ज्ञापांक-7381 दिनांक-03.07.2015 द्वारा निर्गत संकल्प के प्रावधानों को घोर उल्लंघन तथा वित्तीय मामले में घोर लापरवाही, मनमानेपन एवं स्वेच्छाचारिता का परिचय के कारण मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-6938, दिनांक-19.09.2024 द्वारा प्रपत्र 'क' एवं पुनः पत्रांक-8419, दिनांक-21.11.2024 द्वारा संशोधित प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराते हुए इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

2. उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-12229, दिनांक 13.12.2024 द्वारा श्रीमती रश्मि के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न कर भेजते हुए पत्र प्राप्ति के एक पक्ष (15 दिनों) के अंदर बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को प्रस्तुत किये जाने का निदेश श्रीमती रश्मि को दिया गया।

3. श्रीमती रश्मि द्वारा कार्यालय जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अरवल के पत्रांक-116, दिनांक-30.01.2025 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' के विरुद्ध बचाव का लिखित अभिकथन बिन्दुवार विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. विभागीय पत्रांक-2196 दिनांक-28.02.2025 द्वारा श्रीमती रश्मि से प्राप्त स्पष्टीकरण की छायाप्रति महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को भेजते हुए उक्त स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

5. महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-2402 दिनांक-09.04.2025 द्वारा श्रीमती रश्मि के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के सभी 07 बिन्दुओं में से 06 बिन्दुओं को स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने तथा 01 बिन्दु को स्वीकार योग्य होने संबंधी मंतव्य प्रतिवेदित किया गया है।

6. अतएव सम्यक विचारोपरांत श्रीमती रश्मि, तत्कालीन जिला समादेष्टा, रोहतास सम्प्रति प्रमंडलीय समादेष्टा-सह-जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, अरवल के विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र 'क' की वृहद् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। एतद् हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित करने के लिए महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।

उपर्युक्त कंडिका-6 में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1152-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>